



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84]
No. 84]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1981/चैत्र 30, 1903
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1981/CHAITRA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1981

सार्वजनिक सूचना सं० 30-ईटोसी(पीएन)/81

विवरण :—1981-82 के दौरान किसी भी शुद्धता के बाक्ससाइट और खनिज/फास्को जिप्सम का निर्यात।

मि० सं० 6(12)/81-ई-2 :—निर्यात नीति पुस्तक, 1981-82 के पृष्ठ 16 पर बाक्ससाइट की निर्यात नीति के सामने प्रदर्शित नीति विवरण का क्रम सं० 45(1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि बाक्ससाइट के निर्यात की अनुमति नीचे निविष्ट अनुसार दी जाए :—

- (क) (1) 40% से कम मात्रा वाले एल्यूमीना के साथ बाक्ससाइट } खुले सामान्य लाइसेंस
(2) 40% और 50% के बीच एल्यूमीना की मात्रा के साथ लेकिन 5% से अधिक सिलिका की मात्रा के साथ बाक्ससाइट } लाइसेंस-3 के धनु-सार निर्यात अनु-मेय होगा।

(ख) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत न आने वाला "पात्रता के आधार बाक्ससाइट (कैलसिड बाक्ससाइट सहित) पर"

3. पहले-आए सो पहले-पाए के आधार पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत खनिज/फास्को जिप्सम के निर्यात की अनुमति देने का भी निश्चय किया गया है।

4. तदनुसार, निर्यात नीति पुस्तक 1981-82 के पृष्ठ 16 पर नीति विवरण में क्रम सं० 45(1)(क) और (ख) एवं 45(6)(1) के सामने क्रमशः दर्शाई गई नीति को संशोधित करके निम्नप्रकार से पढ़ा जाए :—

भाग "ख" में दी गई क्रम सं०	मद का विवरण	लाइसेंस नीति
1	2	3

- 45(1)(क)(1) 40% से कम मात्रा वाले एल्यूमीना के साथ बाक्ससाइट } खुले सामान्य लाइसेंस
(2) 40% और 50% के बीच एल्यूमीना की मात्रा के साथ लेकिन 5% से अधिक सिलिका की मात्रा के साथ बाक्ससाइट } 3 के अनुसार निर्यात अनु-मेय होगा।

(ख) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत न आने वाला "पात्रता के आधार बाक्ससाइट (कैलसिड बाक्ससाइट सहित) पर"

45(6)(1) खनिज एवं फास्को जिप्सम

पहले-आए सो पहले-पाए के आधार पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्यात अनु-मेय होगा।

मणि नारायणस्वामी,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th April, 1981

Public Notice No. 30-ETC(PN)/81

Subject : Export of Bauxite and Mineral/Phospho Gypsum of any purity during 1981-82.

F.No. 6(12)/81-E.II.—Attention is invited to S.No. 45(i) of Policy Statement appearing against export policy of Bauxite at page 16 of Export Policy Book, 1981-82.

2. It has been decided to allow the export of Bauxite as indicated below :—

- | | |
|--|---|
| (a) (i) Bauxite with alumina content less than 40% | } Export will be allowed as provided under OGL-3. |
| (ii) Bauxite with alumina content between 40% and 50% but with silica content exceeding 5% | |
| (b) Bauxite (including Calcined Bauxite) not covered under (a) above. "On Merits" | |

3. It has also been decided to allow the export of Mineral/Phospho Gypsum within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

4. Accordingly the policy appearing against S.Nos. 45(i)(a) and (b) and 45(vi)(i) respectively in the Policy Statement at page 16 of Export Policy Book, 1981-82 shall be amended to read as under :—

S.No. as in Part 'B'	Description of the item	Licensing Policy
1	2	3
45(i)(a) (i)	Bauxite with alumina content less than 40%	} Export will be allowed as provided under OGL-3.
(ii)	Bauxite with alumina content between 40% and 50% but with silica content exceeding 5%.	
	(b) Bauxite (including calcined Bauxite) not covered under (a) above.	"On Merits"
45(vi)(i)	Mineral and Phospho Gypsum.	Export will be allowed within a limited ceiling on first-come first-served basis.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports.